

This question paper contains 4 printed pages]

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. No. of Question Paper : 4131

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : Value Addition Course (VAC) (For Students of SOL only)

Semester : III

Duration : 2:30 Hours

Maximum Marks : 70

(Part A = 30 marks & Part B = 40 marks)

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

This question paper has 2 parts and 9 questions in total.

Question No. 1 is compulsory.

Part A and Part B are compulsory.

All questions carry equal marks.

इस प्रश्न पत्र में 2 भाग और कुल 9 प्रश्न हैं।

प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है।

भाग 'अ' और भाग 'ब' अनिवार्य हैं।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

Part-A (भाग 'अ')

Attempt any *three* questions. Question No. 1 is compulsory.

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है।

1. Write short notes on any *two* of the following :

- (a) Financial Literacy
- (b) Government sponsored insurance schemes
- (c) Risk Return Trade Off.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) वित्तीय साक्षरता
- (b) सरकार प्रायोजित बीमा योजनाएँ
- (c) जोखिम वापसी ट्रेड ऑफ।

2. X, Y and Z are in the category of super senior, senior and non-senior resident respectively in India for the assessment year 2023-24. The taxable income of X, Y and Z is ₹ 6,00,000; ₹ 15,00,000; and ₹ 25,00,000 respectively for the assessment year 2023-24. Compute the tax liability of each of them under the new tax regime for the assessment year 2024-25.

X, Y और Z भारत में कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः सुपर सीनियर, सीनियर और गैर-वरिष्ठ निवासी की श्रेणी में हैं। कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए X, Y और Z की कर-योग्य आय क्रमशः ₹ 6,00,000; ₹ 15,00,000 और ₹ 25,00,000 रुपये है। कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत उनमें से प्रत्येक की कर-देयता की गणना कीजिए।

3. Achievement of financial goals can be a very challenging process without proactive measures. Explain different strategies to minimise risk.

सक्रिय उपायों के बिना वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए।

4. Calculate the return and risk of the security with the given information :

State	Probability	Return
Boom	0.30	30%
Stagnant	0.40	11%
Bear	0.30	-17%

दी गई जानकारी से सुरक्षा के रिटर्न और जोखिम की गणना कीजिए :

अवस्था	संभावना	रिटर्न
उछाल	0.30	30%
स्थिर	0.40	11%
मंदी	0.30	-17%

Part-B (भाग 'ब')

Attempt any *four* questions.

Each question carries 10 marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. Mr. X invested ₹ 10,000, ₹ 5,000 and ₹ 2,000 at the starting of year 1, 2 and 3 respectively. How much amount will he be able to accumulate after 3 years. If the rate of interest is 10%, will there be any change if he invested ₹ 2,000, ₹ 5,000 and ₹ 10,000 in year 1, 2 and 3 ? If yes, then why ?

$$(PVA_{10\%,1} = 0.909, PVA_{10\%,2} = 0.826, PVA_{10\%,3} = 0.751)$$

एक्स ने वर्ष 1, 2 और 3 की शुरुआत में क्रमशः ₹ 10,000, ₹ 5,000 और ₹ 2,000 का निवेश किया। 3 साल बाद वह कितनी राशि जमा कर पाएगा ? यदि ब्याज दर 10% है, तो क्या वर्ष 1, 2 और 3 में ₹ 2,000, ₹ 5,000 और ₹ 10,000 का निवेश करने पर कोई बदलाव होगा ? यदि हाँ, तो क्यों ?

$$(PVA_{10\%,1} = 0.909, PVA_{10\%,2} = 0.826, PVA_{10\%,3} = 0.751)$$

2. Explain the different types of mutual fund schemes. What are the advantages of investing in mutual funds ?

म्यूचुअल फंड योजनाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या लाभ हैं ?

3. "Financial planning is baseless without proper tax planning." Explain the statement with the help of an example.

"उचित कर नियोजन के बिना वित्तीय नियोजन आधारहीन है।" एक उदाहरण की सहायता से इस कथन की व्याख्या कीजिए।

4. Explain in detail the different types of products and services offered by the retail banks in India.

भारत में खुदरा बैंकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के बारे में विस्तार से बताइए।

5. Write short notes on :

(a) Holding Period Return

(b) Types of fund transfer.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) होल्डिंग पीरियड रिटर्न

(b) फंड ट्रांसफर के प्रकार।